

जन संपर्क एवं मीडिया कोऑर्डिनेटर कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

19 सितंबर 2018

जेएमआई के पूर्व छात्र ने अपनी मज़बूत याददाश्त से सातवें गिनीज़ बुक का रिकार्ड तोड़ा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र मुहम्मद फैसल ने अपनी जबरदस्त याददाश्त से सातवें गिनीज़ बुक रिकार्ड को तोड़ दिया। उन्होंने यह कमाल 15 सितंबर, 2018 को असम वेली स्कूल, तेज़पुर, असम में कर दिखाया। फैसल पहले से ही अपनी इस मज़बूत याददाश्त के लिए चार गिनीज़ बुक रिकार्ड बना चुके हैं।

डा विनीता बी सिंह, डा भुवन चन्द्रा बरुआ और प्रो डा धनपति डेका इस नए रिकार्ड के साक्षी बने।

फैसल ने वर्ष 2016 में जेएमआई से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी।

याददाश्त का यह मुकाबला साल 1952 से 2017 तक “मोस्ट गोल्डन ग्लोब्स- बेस्ट मोशन पिक्चर-म्यूज़िक ऑर कॉमेडी विजेताओं के नाम बताने को लेकर था। मुकाबले के नियम के अनुसार फैसल ने इस सभी विजेताओं के नाम शुरू से लेकर आखिर तक और आखिर से लेकर शुरू तक गिना कर प्रतियोगिता में मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया।

फैसल को एक वर्ष बताया जाता और वह फौरन उस साल के मोस्ट गोल्डन ग्लोब्स- बेस्ट मोशन पिक्चर-म्यूज़िक ऑर कॉमेडी विजेताओं के नाम बिना रुके बता देता।

इस प्रतियोगिता की पूरी वीडियो रिकार्डिंग की गई जिससे इसका सत्यापन किया जा सके। इस रिकार्डिंग को गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड्स को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है। सब सही पाए जाने पर फैसल को तीन महीने बाद सबसे मज़बूत याददाश्त वाले व्यक्ति का सर्टिफिकेट सौंप दिया जाएगा।

गौरतलब है कि फैसल ने “मोस्ट फार्मूला वन वर्ल्ड ड्राईवर्स चैंपियन आइडेंटिफाइड इन वन मिनट ‘ ‘ और मोस्ट बेस्ट ऑस्कर विनर्स आइडेंटिफाइड बाई इअर इन वन मिनट ‘ ‘ प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया था। इन दोनों प्रतियोगिताओं के नतीजे 15 और 23 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया कोऑर्डिनेटर

